

अमर उजाला

नकली दूध और क्रीम बनते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा, रिपोर्ट



नकली दूध के अवैध कारोबार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। मौके से तैयार नकली दूध, क्रीम और नकली दूध तैयार करने की सामग्री बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तहरीर दी गई है। नकली दूध और क्रीम के नमूने लैब भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार की रात कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद देवरी में नकली दूध तैयार करते हुए पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी घर में ही दूध का अवैध कारोबार चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पकड़ा गया जबकि तीन भाग गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पीके त्रिपाठी ने बताया कि गांव से सूचना मिल रही थी कि औरंगाबाद देवरी में नकली दूध बनाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। मौके से 40 लीटर तैयार दूध और चार केन क्रीम मिली है। इसके अलावा डिटेजेंट पाउडर, डालडा, रिफाईंड और हाईड्रोजन, कंप्यूटर कांटे आदि सामान बरामद हुआ है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया दूध गांव में तैयार कर बाहर भेजे जाने की आशंका है। फिलहाल नमूने लैब भेज दिए गए हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी करता था नकली दूध बनाने धंधा, रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी संभल। गांव औरंगाबाद देवरी में जहां नकली दूध और क्रीम पकड़ी गई है। इन आरोपियों पर काफी समय पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आरोपी पहले भी नकली दूध बनाने का काम करते थे। कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद नकली दूध बनाना बंद कर दिया था। उसके बाद डेयरी लगाई थी। किसानों से दूध की खरीद की जाने लगी थी, लेकिन अब फिर से नकली दूध बनाने की सूचना सामने आई। इसके बाद कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने गुमराह करने के लिए आसपास के गांवों में छोटी-छोटी डेयरी संचालित भी की रखी हैं। जिससे किसी को नकली दूध बनने की जानकारी नहीं हो सके। संवाद प्राथमिक पड़ताल में नकली दूध होने की जानकारी सामने आई है। नमूने लैब भी भेजे गए हैं। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कैलादेवी थाने में तहरीर दी है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/sambhal/food-safety-department-team-caught-making-fake-milk-and-cream-report-sambhal-news-mbd4510436118>